

## राजभाषा विभाग की अगस्त, 2018 माह की मुख्य उपलब्धियां

- (i) माननीय गृहमंत्री जी द्वारा पहली बार राजभाषा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की गई, जिसमें संयुक्त सचिव(रा.भा.) द्वारा विभाग के कार्य-कलापों तथा भविष्य के संकल्पों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। माननीय गृह मंत्री जी ने विभाग द्वारा राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
- (ii) 11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन, मॉरीशस में पहली बार राजभाषा विभाग को पूर्ण सत्र के संयोजन का दायित्व सौंपा गया। “प्रौद्यगिकी के माध्यम से हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं का विकास” नामक इस तकनीकी सत्र की अध्यक्षता माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरिन रीजीजू ने की तथा सह-संयोजन का दायित्व डॉ बिपिन बिहारी, संयुक्त सचिव(रा.भा.) द्वारा पूर्ण किया गया।
- (iii) राजभाषा विभाग द्वारा सी-डैक, पुणे के माध्यम से विकसित ‘मेमोरी आधारित अनुवाद टूल – कंठस्थ’ का लोकार्पण दिनांक 18 से 20 अगस्त, 2018 को मारिशस में हुए 11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन में किया गया।
- (iv) विश्व हिन्दी सम्मेलन में राजभाषा भारती के 155वें का विमोचन किया गया।
- (v) विश्व हिन्दी सम्मेलन की प्रदर्शनी में स्टाल लगाकर लोगो को राजभाषा विभाग द्वारा किए जा रहे तकनीकी कार्यों की जानकारी से अवगत कराया गया।
- (vi) देश के विभिन्न नगरों में 94 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का आयोजन किया गया जिनमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में जारी कार्यकारी आदेशों के अनुपालन की स्थिति और उसमें सुधार के उपायों पर चर्चा की जाती है।
- (vii) विभाग में अगस्त, 2018 माह में 82 शिकायतों का निपटान किया गया।
- (viii) केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के कार्यशाला एकक द्वारा दिनांक 06/08/2018 से 10/08/2018 तक राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत सहायक निदेशक (भाषा) पुनश्चर्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 13 कार्मिकों ने भाग लिया।
- (ix) केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के कार्यशाला एकक द्वारा दिनांक 27/08/2018 से 31/08/2018 तक गहन हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 46 कार्मिकों ने भाग लिया।
- (x) विभिन्न गृह पत्रिकाओं के लिए माननीय गृह मंत्री / सचिव / संयुक्त सचिव के संदेश तैयार कर भेजे गए।
- (xi) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अगस्त, 2018 माह में 03 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें कुल 62 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया गया।

- (xii) अगस्त, 2018 में कुल 1090 मानक पृष्ठों की अनूदित सामग्री विभिन्न मंत्रालयों / विभागों को प्रेषित की गई ।
- (xiii) संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति के पश्चात केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के एक उप निदेशक (राजभाषा) को संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियमित पदोन्नति दी गई ।
- (xiv) कर्मचारी चयन आयोग से कनिष्ठ अनुवादकों के 93 डोजियर्स की सूची तैयार कर विभिन्न मंत्रालयों / विभागों को भेजी गई तथा उम्मीदवारों को इस संबंध में सूचित किया गया ।

\*\*\*\*\*